



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 10—सितम्बर 16, 2005 (भाद्रपद 19, 1927)

No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 10—SEPTEMBER 16, 2005 (BHADRA 19, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 2005

सं. एन-15/13/11/3/2005-यो.एवं.वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने 01 सितम्बर, 2005 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा पंजाब कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ) नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ पंजाब राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात्:--

क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम	हदबस्त सं.	तहसील	जिला
1.	गोविन्दगढ़	119	अबोहर	फिरोजपुर
2.	राएपुरा	112	अबोहर	फिरोजपुर

एस. थॉमस, अपर आयुक्त (यो.एवं.वि.)

सं. एन-15/13/11/2/2005-यो.एवं.वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने 1 सितम्बर, 2005 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा पंजाब कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ) नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ पंजाब राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात्:--

क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम	हदबस्त सं.	तहसील	जिला
1.	खोसा पांडा	17	मोगा	मोगा

एस. थॉमस, अपर आयुक्त (यो.एवं.वि.)

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

मुम्बई-400 005, दिनांक 2 अगस्त 2005

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

3 - डबल्यू.सी.ए. (4)/ 2 / 2003 - 2004 :- चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्था परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर से निम्नलिखित सदस्यों के नाम उनकी विनती पर हटा लिये गये हैं।

क्र. सं.	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	003091	श्री. माथूर शंकर अय्यर सुर्यनारायनन 5, शांतीकुंज, प्लॉट नं.279, सायन (पूरब). मुम्बई - 400 022	01/04/2003
2.	005019	श्री. शरदचन्द्रा ठाकूरलाल पटेल 39, रतन आबाद, तुकाराम जावजी रोड, ग्रैन्ट रोड, (पश्चिम). मुम्बई-400007	01/04/2003
3.	005608	श्री. कपाडीया नगिनदास जीवन्भाई 7, रेड स्टॅग रोड, ग्राम्पटन, ऑन्टीरीओ, एल6आर-1जी 8 कैनडा 0 कैनडा	22/05/2003
4.	009618	श्री. सेठ हर्षदराय छबिलदास एच सी सेठ एन्ड कम्पनी, 104, अपोलो स्ट्रीट, भारत हाऊस, 3री मंजिल, मुम्बई - 400 001	01/04/2003
5.	043937	श्री. देशमुख विजयकुमार विष्णू वी.वी.देशमुख एन्ड कम्पनी 657 - एल.- चौगुले कम्पाऊन्ड स्वामी विवेकानंद रोड, पोस्ट एमआयडीसी रत्नागिरी - 415639	01/04/2003

डॉ. अशोक हल्दिदया, सचिव

कानपुर-208001, दिनांक 28 जुलाई 2005

3 सी0 सी0 ए0 (4) (4)/2003-2004 :- चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान विनियम सन् 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1(क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों के नाम उनके आगे दी गयी तिथियों से हटा दिया गया है।

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	दिनांक	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	दिनांक
1.	001749	मि० घोष सुभाष चन्द्रा एच/ओ स्व० प्रो० एस०आर० बोस न्यू डाक बंग्लो मार्ग पटना - 800001	20.01.03	9.	015324	मि० प्रसाद जगत नंदन निकट पुराना पावर हाउस स्वरकर मार्ग सतना - 485001	13.10.03
2.	002049	मि० झा कामेश्वर सुशीला सदन बी-1 राम कृष्ण पार्क पुनैचक पटना - 800023	14.09.03	10.	070407	मि० माथुर प्रेम बिहारी ग्राउण्ड फ्लोर "साई दीप" बिल्डिंग 7/29 तिलक नगर कानपुर - 208002	24.10.03
3.	002547	मि० बोहरा सम्पतिलाल खेमराज 39-40 अश्वनी बाजार उदयपुर - 313001	05.12.03	11.	071267	मि० अवस्थी रमेश कुमार 95ए(1), सुभाष रोड हरजेन्दर नगर कानपुर - 208007	29.09.03
4.	004758	मि० फालोर अर्जुन लाल 2/203 विद्याधर नगर सेक्टर-2 जयपुर - 302012	17.02.04	12.	072325	मि० दोसर विवेक कुमार प्रथम तल, भगवान मार्केट अमीनाबाद, लखनऊ - 226018	13.08.03
5.	005855	मि० पूरन चन्द 1/540 कालाकुआं हाउसिंग बोर्ड अलवर - 301001	22.10.03	13.	076663	मि० श्रीवास्तव संजय "साहब सदन" म० नं० 18 के सामने एम०आई०जी०-2, सेक्टर-3, दीनदयाल उपाध्याय नगर रायपुर - 492010	06.12.02
6.	009038	मि० शर्मा परस राम माधो बाग चोपासनी रोड जोधपुर - 342003	28.09.03	14.	086527	मि० गुप्ता अनिल कुमार दुकान नं० 80 गुलमोहर कामर्शियल काम्प्लेक्स अल्का थियेटर के पास, सेक्टर-15 नोएडा - 201301	18.02.03
7.	011163	मि० महेश्वरी घनश्यामदास 9 एम०आई०जी० जवाहर नगर ए०बी० रोड (एम०पी०) देवास	16.08.03	15.	095798	मि० सुरेन्द्र कुमार गिल कालोनी, कोर्ट रोड नारायनपुरी सहारनपुर	17.09.03
8.	013327	मि० ओसवाल सुरेश सी ए-15 विजय पथ प्रथम तल तिलक नगर जयपुर - 302004	23.11.02				

डॉ. अशोक हल्दिदा, सचिव

3 सी० सी० ए० (4) (2)/2004-2005 :- चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान विनियम सन् 1988 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1(क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों के नाम उनके आगे दी गयी तिथियों से हटा दिया गया है।

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	दिनांक	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	दिनांक
1.	000692	मि० सुराना प्रताप सिंह सी-94 लाल कोठी स्कीम ज्योति नगर एक्सटेन्शन जयपुर - 302015	02.03.05	7.	007216	मि० संचेती सज्जन सिंह पदम नामम 4 साधना नगर, एरोडम मार्ग इन्दौर - 452005	19.04.04
2.	001574	मि० शारदा जेठानन्द सोजाती गेट के बाहर जोधपुर - 342001	21.02.04	8.	008972	मि० सोमानी बंशीलाल श्री कुटीर, डी-65 ए कुम्भनगर चित्तौड़गढ़ - 312001	24.07.03
3.	001806	मि० गर्ग प्रेम दयाल गायत्री सदन महादजी पार्क पैलेस मार्ग लश्कर खालियर - 474009	31.10.04	9.	014375	मि० रतादिया पारसमल कचारमल कालीदास मार्ग मंडसौर - 458002	29.09.04
4.	004686	मि० गुप्ता श्री चन्द्र 80 नवयुग मार्केट गजियाबाद - 201001	30.08.04	10.	042787	मि० दिदवानिया गजेश कुमार साबरी माँ मार्केट ओ०बी०सी० के ऊपर, द्वितीय तल कलेक्ट्रेट मार्ग, राजसमण्ड - 313326	28.02.04
5.	004946	मि० ओंकार दयाल एस०एम०-26 पदमनामपुर दुर्ग - 491001	23.11.04	11.	070493	मि० खन्ना पवन कुमार 7 सी/72 तिलक मार्ग डालीबाग विपरीत नर्मदा भवन लखनऊ - 226001	25.12.04
6.	004992	मि० गर्ग राम नाथ 25 नेहरू नगर आगरा - 262002	22.01.04	12.	071439	मि० शर्मा विजय शंकर 6 जैन मन्दिर रोड भोपाल - 462001	29.05.04

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	दिनांक	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	दिनांक
13.	072212	मि० गुप्ता बाबू लाल 216 सिटी सेन्टर संसार चन्द्र रोड जयपुर — 302001	26.12.02	17.	093244	मि० जैन ललित कुमार ए-104, प्रथम तल गणपति प्लाजा शॉपिंग सेन्टर मिवाड़ी — 301019	18.10.04
14.	073811	मि० दिनेश कुमार एफ-40/282 स्काई टावर संजय प्लेस आगरा — 282002	26.03.04	18.	098007	मि० अग्रवाल क्रीत कुमार 16/77 जी-1, विपरीत श्री जी निवास सिविल लाइन्स कानपुर — 208001	03.05.04
15.	074750	मि० गुप्ता बरुण कुमार 591 मित्र कम्पाउण्ड बोरिंग रोड पटना — 800001	08.09.04	19.	402223	मि० कोठारी अभिषेक 181 भूपालपुरा मेन रोड उदयपुर — 313001	26.01.05
16.	074906	मि० सेठ राकेश सी-17, राजा पार्क कालोनी आदर्श नगर जयपुर — 302004	02.08.04				

(डा० अशोक हल्दिया)
सचिव

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 19th August 2005

No. N-15/13/11/3/2005-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46 (2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st September 2005 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Punjab Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Punjab namely:—

S.No.	Name of the Village	Had Bast No.	Tehsil	Distt.
1.	Gobindgarh	119	Abohar	Ferozepur
2.	Raipura	112	—do—	Ferozepur

S. THOMAS, Additional Commissioner (P&D)

No. N-15/13/11/2/2005-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46 (2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st September 2005 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Punjab Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Punjab namely:—

S.No.	Name of the Village	Had Bast No.	Tehsil	Distt.
1.	Khosa Panda	17	Moga	Moga

S. THOMAS, Additional Commissioner (P&D)

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Mumbai—400 005, the 2nd August 2005

(Chartered Accountants)

3WCA(4)/2/2003-04 In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute at their Request with effect from date(s) mentioned against the names of the following members :-

S.No.	MRN	Member Name & Address	Removal Dt.
1	003991	Mr. MATHUR SANKARA IYER SURYANARAYANAN 5, SHANTI KUNJ, PLOT NO.279 EAST, SION, MUMBAI-400022	01/04/2003
2	005019	Mr. SHARADCHANDRA THAKORLAL PATEL 39, RATAN ABAD, TUKARAM JAVJI ROAD, GRANT ROAD WEST, MUMBAI-400007	01/04/2003
3	005608	Mr. KAPADIA NAGINDAS JIVANBHAI 7, RED STAG ROAD BRAMPTON, ONTARIO, L6R-1G8 CANADA-0, CANADA	22/05/2003
4	009618	Mr. SHETH HARSHADRAI CHHABILDAS H C SHETH & CO, 104, APOLLO STREET, BHARAT HOUSE, 3RD FLOOR, MUMBAI-400001	01/04/2003
5	043937	Mr. DESHMUKH VIJAYKUMAR VISHNU V.V.DESHMUKH & CO 657 - L. CHOUGULE COMPOUND SWAMI VIVEKANAND ROAD, POST MIDC, MATNAGIRI-415639	01/04/2003

(DR. ASHOK HALDIA)
SECRETARY

Kanpur-208001, the 28th July 2005

3CCA(4)(4)/2003-2004 In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulation, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on account of Death with effect from dates (s) mentioned against the names of the following members :-

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Removal dt.	Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Removal dt.
1.	001749	Mr. GHOSH SUBHASH CHANDRA H/O LATE PROF S R BOSE NEWDAR BUNGLOW ROAD PATNA-800001	20/01/03	10.	070407	Mr. MATHUR PREM BEHARI GROUND FLOOR "SAI DEEP" BUILDING 7/29 TILAK NAGAR KANPUR-208002	24/10/03
2.	002049	Mr. JHA KAMESHWAR SUSHILA SADAN B-1 RAM KRISHNA PATH PUNAICHAK PATNA-800023	14/09/03	11.	071267	Mr. AWASTHI RAMESH KUMAR 95A (1), SUBHASH ROAD HARJENDRA NAGAR KANPUR-208007	29/09/03
3.	002547	Mr. BOHARA SAMPATILAL KHEMRAJ 39-40 ASHWANI BAZAR UDAIPUR-313001	05/12/03	12.	072325	Mr. DOSAR VIVEK KUMAR 1 ST FLOOR, BHAGWAN MARKET, AMINABAD LUCKNOW-226018	13/08/03
4.	004758	Mr. FALOR ARJUN LAL 2/203 VIDYADHAR NAGAR SECTOR 2 JAIPUR-302012	17/02/04	13.	076663	Mr. SRIVASTAVA SANJAY "SAHAB SADAN" IN FRONT OF H NO. 18 MIG-II, SECTOR-3, DEENDAYAL UPADHYAY NAGAR RAIPUR-492010	06/12/02
5.	005855	Mr. PURAN CHAND 1/540 KALKAUAN HOUSING BOARD ALWAR-301001	22/10/03	14.	086527	Mr. GUPTA ANIL KUMAR SHOP NO. 80 GULMOHAR COMMERCIAL COMPLEX NEAR ALKA THEATER, SECTOR - 15 NOIDA - 201301	18/02/03
6.	009038	Mr. SHARMA PARAS RAM MADHO BAGH CHOPASNI ROAD JODHPUR-342003	28/09/03	15.	095798	Mr. SURENDER KUMAR GILL COLONY COURT ROAD NARAYANPURI SAHARANPUR	17/09/03
7.	011163	Mr. MAHESHWARI GHANSHYAM DAS 9 MIG JAWAHAR NAGAR A B ROAD (M.P.) DEWAS	16/08/03				
8.	013327	Mr. OSWAL SURESH C A-15 VIJAY PATH 1 ST FLOOR TILAK NAGAR JAIPUR-302004	23/11/02				
9.	015324	Mr. PRASAD JAGAT NANDAN NEAR OLD POWER HOUSE SWARKAR MARG SATNA-485001	13/10/03				

(DR. ASHOK HALDIA)
SECRETARY

3CCA(4)(2)/2004-2005 In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulation, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on account of Death with effect from dates (s) mentioned against the names of the following members :-

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Removal dt.	Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Removal dt.
1.	000892	Mr. SURANA PRATAP SINGH C 94 LAL KOTHI SCHEME JYOTI NAGAR EXETENTION JAIPUR-302015.	02/03/05	11.	070493	Mr. KHANNA PAWAN KUMAR 7C/72 TILAK MARG DALIBAGH OPP NARMADA BHAWAN LUCKNOW-226001	25/12/04
2.	001574	Mr. SHARDA JETHANAND OUTSIDE SOJATI GATE JODHPUR-342001	21/02/04	12.	071439	Mr. SHARMA VIJAY SHANKAR 6 JAIN MANDIR ROAD BHOPAL-462001	29/05/04
3.	001808	Mr. GARG PREM DAYAL GAYATRI SADAN MAHADJI PARK PALCE ROAD LASHKAR GWALIOR-474009	31/10/04	13.	072212	Mr. GUPTA BAHU LAL 216 CITY CENTRE SANSAR CHANDRA ROAD JAIPUR-302001	26/12/02
4.	004686	Mr. GUPTA SHRI CHANDRA 80 NAVYUG MARKET GHAZIABAD-201001	30/08/04	14.	073811	Mr. DINESH KUMAR F-40/282 SKY TOWER SANJAY PLACE AGRA-282002	26/03/04
5.	004946	Mr. ONKAR DAYAL SM-26 PADMANABHPUR DURG-491001	23/11/04	15.	074750	Mr. GUPTA BARUN KUMAR 591 MITRA COMPOUND BORING ROAD PATNA-800001	08/09/04
6.	004992	Mr. GARGH RAM NATH 25 NEHRU NAGAR AGRA-282002	22/01/04	16.	074906	Mr. SETH RAKESH C-17 RAJA PARK COLONY ADARSH NAGAR JAIPUR-302004	02/08/04
7.	007216	Mr. SANCHETI SAJJAN SINGH PADAM NABHAM 4 SADHNA NAGAR AERODREME ROAD INDORE-452005	19/04/04	17.	093244	Mr. JAIN LALIT KUMAR A-104, 1 ST FLOOR GANPATI PLAZA SHOPPING CENTRE BHIWADI-301019	18/10/04
8.	008972	Mr. SOMANI BANSILAL SHRI KUTIR, D 65 A KUMBHANAGAR CHITTORGARH-312001	24/07/03	18.	098007	Mr. AGRAWAL KREET KUMAR 16/77 G-1, OPP. SHRI JI NIWAS CIVIL LINES KANPUR-208001	03/05/04
9.	014375	Mr. RATADIYA PARASMAL KACHARMAL KALIDAS MARG MANDSAUR-458002	29/09/04	19.	402223	Mr. KOTHARI ABHISHEK 818 BHUPALPURA MAIN ROAD UDAIPUR-313001	26/01/05
10.	042787	Mr. DIDWANIA GAJESH KUMAR SABARI MAA MARKET ABOVE O B C 2 ND FLOOR COLLECTORATE ROAD RAJSAMAND-313326	28/02/04				

(DR. ASHOK HALDIA)
SECRETARY